



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 222 राँची, मंगलवार, 12 मार्च, 2019 (ई०)

---

#### महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

-----  
संकल्प

7 मार्च, 2019

**विषय :-** राज्य योजनान्तर्गत संचालित स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अधीन लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि रु०-600/- प्रतिमाह में वृद्धि कर रु०-1,000/- प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

**संख्या- 643--** राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अधीन वर्तमान में राज्य के आच्छादित लाभुकों को रु० 600/- प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मासिक प्रोत्साहन राशि रु० 600/-प्रतिमाह में वृद्धि कर रु० 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह किया जाता है।

3. जिन लाभूकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष या उससे उपर के आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना एवं HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ देय नहीं होगा। उसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभूकों को उपर वर्णित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

4. योजनान्तर्गत लाभूकों के मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि दिनांक-01.04.2019 से प्रभावी होगी।

5. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 26.02.2019 की बैठक की मद संख्या 10 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी संकल्प संख्या-959, दिनांक-10.08.2006 तथा संकल्प सं0-1637, दिनांक-28.07.2015 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,  
सरकार के सचिव।

-----